

संख्या 00460/2023-2024

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 31/05/2023



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

नवीनीकरण

संख्या: R/FAR/02331/2023-2024

पत्रावली संख्या: K-53888

दिनांक: 2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि डॉ सुनीता शिक्षण संस्थान समिति, एस०एस० नगर, निसाई, बेबर रोड, जनपद फरूखाबाद उ०प्र०, फरूखाबाद, 209601 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 560/2017-18 दिनांक-03/07/2017 को दिनांक-03/07/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1600 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्पूर्ण रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By
(AKHILESH CHANDRA MAURYA)
154C24284C6D8CF5A6D0F0A1F55F1A2114636DE4**

Date: 31/05/2023 12:43:49 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-31/05/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- डॉ अनुग्रह शिक्षण संस्थान समिति
2. संस्थान का पता :- एस० एस० नगर, गिराई, वेवर रोड, अनुपपुर, कर्णाचाबाद (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्य केन्द्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के मुख्य उद्देश्य -
 1. शिक्षण प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक विद्यालय / महाविद्यालय को खोलना, चलाना व रखना।
 2. विद्यार्थीय हेतु रोजगार पूरक विषयों व संकायों की सम्बद्धता विद्यालय / महाविद्यालय में लेना।
 3. संस्था द्वारा सौसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत रामी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
 4. संस्थाले में छात्र / छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवारीय सुविधा प्रदान करना।
5. समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, शैध केन्द्र, मेडिकल कालेज, वेटनरी मेडिकल कालेज, आष्टुटो-डेंक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी संस्थायें, इन्जीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक कालेज, आईटीआई० कालेज, नहायिंदा लघ, प्राइमरी, जूनियर तथा हाईस्कूल एवं इंटर कालेज (जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं सी०वी०स०स०० बोर्ड से सम्बद्ध) आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
6. समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर, रिसर्च सेन्टर आदि उल्लेखनीय तथा उन्हें संचालित करना एवं उनका प्रबन्ध करना।
7. चरित्रबान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों, शिक्षकों तथा विषेशज्ञों की नियुक्ति करना, जो रिष्ट्रेंटों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषण, कार्य बौद्धिक एवं उपयोगी जूतें में दब्या आधुनिकतम शिक्षण देने योग्य हों।
8. विद्यार्थी एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की सोर स्वतंत्र और सनातोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके।
9. समिति के विषय वस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन, अन्तरण तथा अन्य लेन देन करना तथा उद्देश्यों लो प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित करना।
10. दान, उपहार, अनुदान तथा अन्य भेटों को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार में लाना।
11. इस समिति के आर्थिन संस्थापित या रथापित की जाने वाली संस्थाओं के साधारण व देख रेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिये व्यापक शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लेना आदि।
12. शिष्टों को इस प्रकार प्रशिक्षित और राज्ज करना कि वे शिष्ट और सामान्य जीवन अपनाने के लिये आत्मनिर्भर हो राकें और अच्छे स्वरूप और प्रगतिशील नागरिक बने।


प्रबन्धक/सचिव

शकुन्तला देवी कालेज ऑफ फार्मेसी
कम्प्यूली नगरगंज कर्णाचाबाद (उ०प्र०)

(2)

13. विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिये छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।

14. समिति द्वारा शिक्षण संस्थायें आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना तथा पूर्व से अन्य समिति द्वारा चल रहे किसी भी महाविद्यालय को अपने द्वारा संचालित करना।

15. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजनाओं को जनहित में संचालित करना व कराना।

16. सेमिनार, कानफेन्स, प्रदर्शनी आदि के आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।

17. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति, भूमि भवन आदि दान, पट्टे पर लेना, क्रय करना, किराये पर लेना आदि।

(5) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हे नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	डा० सुनीता यादव	पत्नी डा० शैलेन्द्र सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	अध्यक्ष	चिकित्सक
2.	श्रीमती शकुन्तला देवी	पत्नी श्री जय सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	उपाध्यक्ष	शिक्षिका
3.	डा० शैलेन्द्र सिंह	श्री जय सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	प्रबन्धक/सचिव	चिकित्सक
4.	श्री जय सिंह	श्री शिवदयाल सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	कृषि
5.	श्री अजीत सिंह	श्री रामपाल सिंह	ग्रा० व पो० अहिरुआ, राजारामपुर, छिबरामऊ, जिला-कन्नौज	कोषाध्यक्ष	शिक्षक
6.	डा० पुष्पेन्द्र सिंह	श्री जय सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	सदस्य	शिक्षक
7.	डा० अंगना यादव	पत्नी डा० पुष्पेन्द्र सिंह	इन्द्रा नगर, यादव कालोनी, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	सदस्य	शिक्षिका

प्रबन्धक/सचिव
शकुन्तला देवी कालेज ऑफ कार्मसी
छिबरामऊ फर्रुखाबाद (उ०प्र०)

(3)

- (e) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता समिति को उपरोक्त सूति पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत उपयुक्त समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं :-

क्रमसंख्या	नाम	हस्ताक्षर
1.	डा० चुनीता यादव	Sunila
2.	श्रीमती शकुन्तला देवी	Shakuntala Devi
3.	डा० शैलेन्द्र सिंह	Shailendra Singh
4.	श्री जय सिंह	Jay Singh
5.	श्री अजीत सिंह	Ajeet Singh
6.	डा० पुष्पेन्द्र सिंह	Pushpendra Singh
7.	डा० अंगना यादव	Angana


प्रबन्धक/सचिव
शकुन्तला देवी कालेज (रॉक फार्मसी
कृष्णांती नवाबगंज फरुद्दीन (10प्र०)

नियमावली

1. संस्था का नाम :- डॉ रुनीता शिक्षण रास्थान रामिति
2. संस्थान का पता :- एस० एस० नगर, बैबर रोड, निराहौ, जनपद-पर्यावाद (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :- प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उम्र से बालिग हो, संस्था के उद्देश्यों से आशा व विश्वास रखता हो, नियमानुसार नियमावली का पालन करने के लिये व्यवनब्द्ध रह, संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्यता हेतु संस्था के प्रबन्धक/सचिव के नाम आवेदन करना होगा। संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्यता हेतु संस्था के प्रबन्धक/सचिव के नाम आवेदन करना होगा। संस्था की सदस्यता पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के निर्देश देकर रास्यता प्रदान की जा सकती है।

(i) आजीवन सदस्यता :- जो व्यक्ति संस्था वो रु० ५१०००.०० (रुपये इक्काहन हजार मात्र) या समान मूल्य की चूँच-अचल राम्पति देंगे, वही व्यक्ति इस संस्था के आजीवन सदस्य होगे।

(ii) लामान्य सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था वो रु० ११००.०० (रुपये एक हजार सौ मात्र) प्रवेश शुल्क देकर प्रतिवर्ष रु० १०००.०० (रुपये एक हजार मात्र) वार्षिक शुल्क देंगे, वह व्यक्ति इस संस्था के सामान्य सदस्य होगे।

(iii) विशिष्ट सदस्य :- संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसली सेवा एवं दो-दो में के आधार पर संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जा सकेगा। विशिष्ट सदस्यों की सदस्यता नियमित द्वारा दिया जाएगी, किन्तु इनकी संख्या चार से अधिक न होगी। दो-दो सदस्य अध्यक्ष व सचिव बना सकेंगे। इन्हें साधारण सभा का सदस्य माना जायेगा।

(iv) संस्थापक सदस्य :- जिन व्यक्तियों के द्वारा संस्था के पंजीयन के समय रु० १००१.०० (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) संस्था को दान दिया जायेगा, उन्हे पंजीयन के समय में दिये गये स्मृति पत्र के सदस्य नामांकन में सं संस्थापक सदस्य घोषित किया जायेगा, पंजीयन के ०२ वर्ष के संस्थापक सदस्य नहीं मनाये जाएंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति :- मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, कोढ़ी हो जाने या दिवालिया हो जाने पर, न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर, सदस्यता शुल्क नियमित न देने पर, संस्था विरोधी कर्य करने पर, विना पूर्व सूचना के लगातार तीन या इससे अधिक बैठकों में अनुपथित रहने पर, त्यानपत्र देने व स्वीकार हो जाने पर, २/३ बहुमत से अविस्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर सदस्यता की समाप्ति के निर्धारण सनिति के अनुमोदन पर साधारण सभा के २/३ बहुमत से लिया जायेगा।

6. संस्था के अंग :-

- (1) साधारण सभा
- (2) प्रबन्धकालिणी

(1) साधारण सभा :-

(अ) गठन :- साधारण सभा का गठन सभी वर्गों के सदस्यों गिलाकर किया जायेगा, जिसमें निम्न प्रकार के सदस्य शामिल होंगे।

- (i) संस्थापक सदस्य
- (ii) आजीवन सदस्य
- (iii) लामान्य सदस्य
- (iv) विशिष्ट सदस्य


प्रबन्धक/सचिव

शकुन्तला देवी कालेज ऑफ फार्मेसी
कुर्खोती नवाबगंज फर्रुखाबाद (उ०प्र०)

(2)

(ब) बैठकों :- प्रबन्धक/सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन पर साल में एक बार साधारण सभा की बैठक बुलाई जाना अनिवार्य होगा। साधारण सभा की बैठकों आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :- साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनायें 7 दिन पूर्व व विशेष की 3 दिन पूर्व प्रसारित होना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति :- कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के अभाव में कोरम के अधिकारी बैठकों के लिये कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत् ही रहेगा।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि :- संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी, जिसमें उसी वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी, जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति अपने बहुमत से तय करेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (i) प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।
- (ii) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन साधारण सभा के बहुमत के आधार पर ही किया जायेगा।
- (iii) वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
- (iv) प्रबन्ध समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें करना।

(2) प्रबन्ध कारिणी समिति :-

(अ) गठन :- साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव होगा, जो 05 वर्ष तक विधमान्य होगी। प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात् साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का पुनः गठन किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों व सदस्यों का चुनाव होगा।

अध्यक्ष	-	एक
उपाध्यक्ष	-	एक
प्रबन्धक/सचिव	-	एक
उपप्रबन्धक/उपसचिव	-	एक
कोषाध्यक्ष	-	एक
सदस्य	-	एक

इस प्रकार वर्तमान में प्रबन्ध समिति में कुल पदाधिकारी व सदस्य 07 होंगे।

(ब) बैठकों - सामान्य व विशेष :- साधारण सभा की सामान्य बैठकों का आयोजन प्रति तिमाही किया जायेगा।

(स) सूचना अवधि :- साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनायें 07 दिन पूर्व व विशेष की 24 घण्टे पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(द) गणपूर्ति :- कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के अभाव में कोरम के अधिकारी बैठकों के लिये कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत् ही रहेगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति में हुये आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।


प्रबन्धक/सचिव

“दुन्ला देवी कालेज ऑफ कार्मसी

7. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल :-

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा एवं समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों द्वारा संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल भी 05 वर्ष का होगा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति वित्तीय वर्ष 01 अपैल ई 20 गांव फ्लोक वर्ष के लिये बचत प्रताव को तैयार कर पास करायेगी।
3. प्राचोर्य शिक्षक एवं शिक्षीतार कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति, निष्काशन एवं निलम्बन प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार ही जापेगी। जिसके लिये भवन समिति के सचिव को अधिकृत किया जायेगा।
4. समिति द्वारा प्रस्तावित आय व्यय को संचालित करना।
5. समिति की वित्तीय वर्ष के निकाश में से या उरावों किसी गांव के विक्रम के आगम में से ऐसी धनराशि जैसे के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति की जाये भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूर्जागत व्यय करने के लिये खर्च कर सकेंगे।
6. समिति को शुल्क अनुदान उपहार तथा अन्य धनराशियों के जरिये जो भी धन उसे प्राप्त होगा लेखा देगी और किसी श्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में पदाधिकारियों के निर्देश का पालन करेगी।
7. संस्था ली चल व अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेना तथा उसका रख रखाव करना।
8. इनिहि को सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों समितियों एवं संस्थाओं को देने राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु समिति की वर्तमान एवं (Acquire) द्वाने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बंधक(Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।
9. समिति को संस्थाओं को संचालित करने के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य बैंक, वित्तीय संस्थान, ल्यान्चेर निकायों, अन्य संस्थाओं, व्यक्तिओं तथा प्राइवेट, लिमिटेड कम्पनियों से आवश्यक भवन निर्माण व उन्नी उपकरणों आदि हेतु ऋण एवं बैंक गारन्टी समय समय पर प्राप्त हो सकेंगे।
10. नहविद्यालय भवन आदि का निर्माण कराना एवं अन्य व्ययों हेतु राजकीय अनुदान, सांसद, विधायक निविद्य तथा दान लेना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंक आदि से लोन प्राप्त करना समितियों, द्रष्ट को ऋण व दान देना।
11. समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता जैसे चालू खाता, बचत खाता, मियादी खाता, ऋण खाता, गारण्टी खाता इत्यादि खोलने का अधिकार होगा। बैंक खातों का संचालन प्रबन्ध समिति के सचिव के हस्ताक्षर से होगा। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह बैंक में अपने नाम पर या संचालित संस्था के नाम पर जो भी उचित समझे, खोलेगी।
12. समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का वयन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
13. समिति की चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति पदाधिकारियों व सदस्यों के दान द्वारा समिति के आजीवन सदस्यों, अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान प्राप्त होगी।


प्रबन्धक/सचिव
शकुनता देवी कालेज ऑफ कार्यसी
झज्जोली नवाबगंज फरसाकाद (उ०प्र०)

(4)

14. समिति द्वारा बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने के पश्चात् बैंक की अदायगी समय से नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा कि वह समिति की सम्पत्ति को नीलाम करके बैंक की बकाया राशि वसूल कर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 15. समिति भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों आदि के सहयोग विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।
 16. समिति को अपनी भूमि/अन्य सम्पत्ति को नियमानुसार समिति द्वारा प्रस्तावित/संचालित संस्थाओं के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र/पंजीकृत विलेख एवं लीज पर देने का अधिकार होगा।
 17. शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क छात्र/छात्राओं से प्राप्त कर नियमानुसार प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षेत्तर कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान करना।
 18. प्रबन्धक/सचिव द्वारा सरकार एवं अन्य व्यक्तिओं से पत्र व्यवहार कराना।
 19. कोई धन अथवा सम्पत्ति महाविद्यालय के नाम होगी अथवा ली जायेगी, तो धन अथवा सम्पत्ति सचिव के माध्यम से प्रबन्ध समिति का अधिकार होगा।
 20. संस्था को तरफ से कानूनी कार्यवाही करना या संस्था के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चलता है, तो सचिव के माध्यम से उसकी पैरवी करना।
 21. शिक्षा संस्थान के लिये नियमानुसार विभिन्न प्रकार के सदस्य बनाना तथा उनकी सदस्यता स्वीकृति सुनिश्चित करना।
 22. प्रबन्ध समिति का यह भी अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से अपनी नियमावली में संशोधन कर सके।
६. प्रबन्धकारणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-
1. अध्यक्ष :-
 1. प्रबन्धसमिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. बैठक करने के लिये जिन्होने कोई अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन और बैठकों को स्थगित करना।
 3. इस बात की देख-रेख करना कि नियमावली का पालन समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा निष्ठा के ताथ कार्य विन्दु किये जाये।
 4. यदि बैठक में दो पक्षों के बराबर मत हो तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देना। 2. उपाध्यक्ष :-
 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को उसके सब अधिकार प्राप्त होंगे।
 2. ऐसे समस्त अधिकारियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना, जो अध्यक्ष द्वारा लिये रूप से प्रतिनिहित किये गये हों।



प्रबन्धक/सचिव
**शकुन्तला देवी कालेज ऑफ कार्यसी
 कल्याणी नवाबगंज फरुखाबाद (उप्र०)**

3. प्रबन्धक/सचिव :-

1. इस प्रबन्ध समिति का मुख्य कार्यपालक होगा, तथा समस्त प्रकार के संचालन प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होगा।
2. संचालित नहाविद्यालय की चल-अचल समिति भूमि भाग आदि की दल-रेख व सुरक्षा करना। इससे सामाजिक अनुबन्धों, दस्तावेजों व शर्तनामों आदि पर सम्पादन की प्रधान हैसियत रो ही करना।
3. प्रबन्ध समिति व महाविद्यालय को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दाना व अनुदान एवं अन्य प्रकार की दिल्लीय राहायता प्रदान करना व उनमें प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करना।
4. संस्था व सभी प्रकार के रिकार्ड व रजिस्टर आदि तैयार करना व उन्हें प्राप्तियों पर अध्यक्ष से सत्यापित करना।
5. अनुमति बजट तैयार करना व उसे प्रबन्ध समिति रो पास करना तथा बजट को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार का ध्यान।
6. संस्था और से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना व संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
7. संस्था व प्रतिवेदियों को कार्यरूप प्रदान करना।
8. इन्हें सनान, रजिस्टर प्रसारित करना, दैटकोड का आयोजन करना।
9. इन्हें भाग, महाविद्यालय, प्रशासन योजना, शिक्षा संहित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व उनके विभागों व अनुच्छेदी द्वारा नहाविद्यालय को होने वाली सभी अधिकारों का पालन करना व प्रयोग करना।
10. इन्हें इस अध्या उसके विरुद्ध होने वाली समस्त अदायगी, कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
11. इन्हें इकार के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्तियां, विमुक्ति पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन आदि के विरुद्ध होने वाली समस्त अदायगी, कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
12. संस्था इन्हें जरूर होने वाले सभी आदेशों पर अपने हस्ताक्षर करना।
13. इन्हें दूर दियों का भुगतान करना।
14. इन्हें हस्ताक्षर से समिति या समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम का खाता खोलना व उसका जुलाहन धनाहरण करना आदि।
15. इन्हें स्थिति में जब प्रबन्ध समिति भी वैठक बुलायी जानी सम्भव न हो सके, तब अध्यक्ष की सहमति से ज्ञान कालीन नियंत्रण लेना।

4. उप्रबन्धक/उपसचिव :-

1. रजिस्टर को सहयोगी के रूप में करना चाहिए।
2. संविद वी अनुसारिति में प्रबन्ध समिति द्वारा उद्दीप्त रो प्राप्तिकर्ता अधिकारों का प्रयोग करना व कार्रवाई का पालन करना।
3. रघुविवेद को दिल्लीय अधिकार प्राप्त करना।



प्रबन्धक/सचिव

पाकुन्तला देवी कालेज ऑफ कार्मसी
कृष्णानी नगरगांज फराहखाबाद (उ०प्र०)

- 5. कोषध्यकृत :-**
1. संस्था के आय व्यय का विधिवत रख-रखाव व लिखा पढ़ी करना। संस्था का वार्षिक बजट तैयार करने में सचिव की मदद करना व आवश्यक सुझाव देना।
 2. संस्था के सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना।
 3. आडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।
 4. नियुक्त आडिटर से विधिवत आडिट तैयार करवाना।
 5. सदस्य प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित होना।
- 9. संस्था के नियमों व विनिमयों में संशोधन प्रक्रिया :-** संस्था के साधारण सभा के $\frac{2}{3}$ नियमों एवं विनिमयों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन स्वीकार होंगे।
- 10. संस्था के कोष :-**
1. संस्था के समरत कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन संस्था के सचिव के हस्ताक्षर से होगा।
 2. यदि किसी नियम व योजना के लिये संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से खोलाना अनिवार्य होगा, तो उस योजना विशेष के लिये संस्था का खाता अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला व चलाया जा सकेगा।
- 11. संस्था के आय-व्यय का लेखा परिक्षण (आडिट) :-** संस्था के आय-व्यय का लेखा प्रतिवर्ष साधारण सभा द्वारा नियुक्त आडिटर के द्वारा कराया जा सकेगा।
- 12. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही संचालन का उत्तरदायित्व :-** यदि किसी पर संस्था नुकदमा चलाती है या संस्था पर कोई मुकदमा चलाया जाता है। अदालती कार्यवाही संस्था के सचिव के नाम से या उसके द्वारा चलाई जायेगी।
- 13. संस्था के अभिलेख :-**
1. सदस्यता रजिस्टर
 2. एजेण्डा कार्यवाही रजिस्टर
 3. स्टाक रजिस्टर
 4. कैश बुक आदि।
- 14. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निरसारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अनतर्गत की जायेगी।**



प्रबन्धक/सचिव
शकुन्तला देवी कालेज ऑफ फार्मसी
इयोली नवाबगंज फर्रुखाबाद (उप्र०)